

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – सप्तम

दिनांक -१८ -०४ - २०२१

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज संबंधवाचक एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे ।

संबंधवाचक सर्वनाम

संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा

जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। या -

जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का अहसास तो होता है, लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं चलता उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से सम्बंधित हों, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे: जैसी ,वैसी , जैसा , जो , जिसकी , सो , जिसने , तैसी , जहाँ , वहाँ , जिसकी , उसकी , जितना , उतना आदि।

संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण

- जैसी करनी वैसी भरनी।
- जिसकी लाठी, उसकी भैंस।
- जो सोवेगा सो खोवेगा जो जागेगा सो पावेगा।
- जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा
- यह वही लड़का है जो घर आया था।
- जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं।

प्रश्नवाचक सर्वनाम

प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा

जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात् जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या -

जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

सरल शब्दों में- प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें 'प्रश्नवाचक सर्वनाम' कहते हैं।

जैसे: क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किसलिए, कहाँ आदि।

प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण

- यह कौन है ?
- टोकरी में क्या रखा है।
- बाहर कौन खड़ा है।
- तुम क्या खा रहे हो?
- देखो तो कौन आया है?
- तुम बाज़ार से क्या लाये हो?
- मेरा बटुआ किसने लिया?
- तुम कहाँ जा रहे हो ?
- तुम बाजार से क्या लाये ?